

COVID-19 एंटीजन परीक्षण: सामुदायिक मार्गदर्शन

(COVID-19 Antigen Testing: Community Guidance)

एंटीजन परीक्षण एक प्रकार का वायरल COVID-19 परीक्षण है जो तेजी से परिणाम देता है। सभी तो नहीं, लेकिन कई स्व-परीक्षण एंटीजन परीक्षण हैं। टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना या यदि आप में लक्षण हैं तो आप एंटीजन परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप का परीक्षण का परिणाम पॉजिटिव आता है, तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं। यदि आपसे दोबारा परीक्षण करने की अनुशंसा की जाती है, तो एक मोलिक्यूलर परीक्षण, जैसे कि पीसीआर परीक्षण कराने पर विचार करें, जिससे अधिक सटीक परिणाम मिल सकता है। एंटीजन जांच करने के बाद अपने अगले चरणों को निर्धारित करने के लिए नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करें।

